



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 11-अक्टूबर 17, 2003 (आश्विन 19, 1925)
No 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 11-OCTOBER 17, 2003 (ASVINA 19, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	1007
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	819
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	5
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1276
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड-1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड-3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड-3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-3 उप-खण्ड—(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1431
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	4531
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अजीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	9393
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	325
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के प्रमाणों को दर्शाने वाला प्रमाण	*

*आकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page		Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	1007	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	819	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence ..	5	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India. ..	1431
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ..	1276	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ..	4531
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations ..	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners ..	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations ..	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	9393
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills ..	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies ..	325
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2002

सं० एफ० 23-2/2001-टी०एस०-II—इंस्टीट्यूशन आफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (इंडिया), मुम्बई से संबंधित सिविल रिट याचिका सं० 3570/2001 तथा एल० पी० ए० सं० 49-50/2002 के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 31-1-2002 के निर्देशों के अनुसरण में शैक्षिक अर्हताओं को मान्यता देने संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने 12-2-2002 तथा 15-5-2002 को आयोजित अपनी विशेष बैठक में केन्द्र सरकार के तहत नियोजन के प्रयोजनार्थ इंस्टीट्यूशन आफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (इंडिया), मुम्बई द्वारा आयोजित तकनीशियन इंजीनियर्स परीक्षा (त०) के भाग-I तथा II और एंशोशिएट मेम्बरशिप परीक्षा के सेक्शन “ए” तथा “बी” को दी गई मान्यता की समीक्षा की।

2. इंस्टीट्यूशन आफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (इंडिया), मुम्बई की समुचित सुनवाई करने के पश्चात् उच्च स्तरीय समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिए :—

(I) केन्द्र सरकार के तहत नियोजन के प्रयोजनार्थ इंस्टीट्यूशन आफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (इंडिया), मुम्बई की एंशोशिएट मेम्बरशिप परीक्षा के सेक्शन “ए” तथा “बी” और तकनीशियन इंजीनियर्स परीक्षा (त०) के भाग-I तथा II को दी गई मान्यता तत्काल प्रभाव से वापस ले ली गई है।

(II) मान्यता वापस लेने संबंधी निर्णय भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगा अर्थात् जिन विद्यार्थियों ने इंस्टीट्यूशन आफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (इंडिया), मुम्बई द्वारा आयोजित सेक्शन “ए” तथा “बी” और भाग-I तथा II परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे केन्द्र सरकार में नौकरी प्राप्त करने हेतु पात्र बने रहेंगे।

(III) इंस्टीट्यूशन आफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (इंडिया), मुम्बई अपनी पाठ्यचर्या, परीक्षा प्रणाली नियुक्ति प्रक्रिया तथा परीक्षकों की अर्हता, तथा अन्य संबंधित मुद्दों के संबंध में उच्च स्तरीय समिति

द्वारा गठित दल द्वारा यथा उल्लिखित सभी कमियों को दूर करने के पश्चात् केन्द्र सरकार के तहत नियोजन के प्रयोजनार्थ इस संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को मान्यता के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से विचार-विमर्श करने के लिए आवेदन कर सकता है।

बी० एस० पाण्डेय, संयुक्त सचिव (तक०)
तथा सदस्य-सचिव, शैक्षिक अर्हता हेतु उच्च स्तरीय समिति

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 2003

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग
का पुनर्गठन

सं० एफ० 22/2/2001-आई० एन० सी०—दिनांक 17-09-2002 तथा 26-02-2003 की इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 22-2/2001-आई० एन० सी० के क्रम में विज्ञान, संचार तथा शिक्षा पर उप आयोगों में निम्नलिखित को संस्थागत सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जाता है :—

विज्ञान पर उप-आयोग

क्रम सं० पर

7. सचिव,
जल संसाधन मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन,
रफी मार्ग, नई दिल्ली।

8. सचिव,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003।

संचार पर उप-आयोग

क्रम सं० पर

8. सचिव,
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
ब्लॉक सं०-6, सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली।

शिक्षा पर उप-आयोग

क्रम सं० पर

6. सचिव,

प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग,

मानव संसाधन विकास मंत्रालय,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सभी व्यक्तिगत और संस्थागत सदस्यों; भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों; सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों; योजना आयोग, लोक सभा सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति सचिवालय इत्यादि को संशोधन की सूचना भेजी जाए।

च० बालकृष्णन, संयुक्त सचिव

(प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 2003

संकल्प

विषय : सर्व शिक्षा अभियान के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना—शुद्धि पत्र

सं० एफ 2-4/2000-ई०ई०-III (डेस्क०ई०ई०) — भारत सरकार के संकल्प सं० एफ० 2-4/2000-डेस्क (ई०ई०) दिनांक 2 जनवरी, 2001 के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्व शिक्षा अभियान के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन किया गया था। इस मिशन में एक शासी परिषद और एक कार्यकारिणी समिति है।

मिशन की शासी परिषद और कार्यकारिणी समिति के गठन के आंशिक आशोधन के अनुसार राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास, शासी परिषद के सदस्य व कार्यकारिणी समिति के वरिष्ठ उप-सभापति होंगे। शासी परिषद व कार्यकारिणी समिति का परिचालित गठन इस प्रकार होगा :—

शासी परिषद्

- (i) भारत के प्रधानमंत्री — अध्यक्ष
- (ii) मानव संसाधन विकास मंत्री — उपाध्यक्ष
- (iii) मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री
- (iv) वित्त मंत्री, भारत सरकार
- (v) उपाध्यक्ष, योजना आयोग
- (vi) महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
- (vii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री
- (viii) प्रमुख राष्ट्रीय दलों के छह वरिष्ठ स्तरीय नेता
- (ix) तीन संसद सदस्य (लोक सभा से दो, राज्य सभा से एक)
- (x) प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी छह राज्यों के शिक्षा मंत्री
- (xi) शिक्षकों व शिक्षक संघों के छह प्रतिनिधि
- (xii) शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों आदि में से पांच व्यक्ति
- (xiii) शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से छह व्यक्ति

(xiv) महिला संगठनों से तीन व्यक्ति

(xv) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत तीन व्यक्ति।

कार्यकारिणी समिति

- (i) मानव संसाधन विकास मंत्री — अध्यक्ष
- (ii) मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री — वरिष्ठ उपाध्यक्ष
- (iii) सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग — उपाध्यक्ष
- (iv) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
- (v) निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
- (vi) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
- (vii) महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
- (viii) महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
- (ix) वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- (x) प्रधान सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग
- (xi) सात गैर-सरकारी व्यक्ति जिसमें शिक्षक, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए शिक्षाविद शामिल होंगे।
- (xii) चार राज्यों के शिक्षा सचिव
- (xiii) संयुक्त सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा और महानिदेशक, सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन—सदस्य सचिव

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सर्व शिक्षा अभियान के सभी सदस्यों को परिचालित कर दी जाए।

आदेश है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दी जाए।

आदेश है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० सी० त्रिपाठी

सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 2003

सं० पी०एल०यू० 12/1/03-पी०पी०/1—इस मंत्रालय के दिनांक 17-4-95 के संकल्प संख्या 15/2/91-बी०एम० तथा दिनांक 1-8-96 की अधिपुचन संख्या 32/1/96-ई०आर०/591 में आंशिक संशोधन करते हुए जल संसाधन मंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि “तटीय सुरक्षा और विकास सलाहकार समिति” के संघटन में क्रम सं० 7 पर आयुक्त (पूर्वी नदियां), जल संसाधन मंत्रालय के स्थान पर आयुक्त (नीति एवं आयोजना), जल संसाधन मंत्रालय का नाम शामिल किया जाए।

इस मंत्रालय के दिनांक 17-4-95 के संकल्प संख्या 15/2/91-बी०एम० के अनुसार उक्त समिति के अन्य सभी कार्य तथा निबन्धन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

ए० के० सूरी

जवर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 10th June 2002

No. F.23-2/2001-TS.III.—The High Level Committee for recognition of Educational Qualifications in its special meeting held on 12-2-2002 and 15-3-2002 in pursuance of the directions of the Honble High Court of Delhi dated 31-1-2002 in the matter of Civil Writ Petition No. 3570/2001 and LPA No. 49-50/2002 relating to Institution of Mechanical Engineers (India), Mumbai reviewed the recognition granted to Part I and II of Technician Engineers Examination (T) and Section A&B of Associate Membership Examination of the Institution of Mechanical Engineers (India), Mumbai for the purpose of employment under Central Government.

2. After giving a fair hearing to the Institution of Mechanical Engineers (India), Mumbai, the High Level Committee took following decisions :—

- (i) Recognition of Associated Membership Examination of Section A & B and Part-I & II of Technician Engineers Examination (T) of the Institution of Mechanical Engineers (India), Mumbai for the purposes of employment under Central Government stand withdrawn with immediate effect.
- (ii) Withdrawal of the recognition will be effective prospectively, i.e. students who have already got Section A&B and Part-I and II awards from IME (India), Mumbai will continue to be eligible for employment in Central Government.
- (iii) IME (India), Mumbai will be at liberty to approach the Ministry of Human Resource Development for recognition of awards granted by them for employment purposes in the Central Government as and when they remove all deficiencies with regard to revision and upgradation of curriculum, examination system, procedure for appointment and qualification of examiners and other related issues, as pointed out by the Group constituted by the High Level Committee.

V. S. PANDEY
Joint Secretary (Tech.) &
Member-Secretary, High Level Committee
for Educational Qualifications

RE-CONSTITUTION OF THE INDIAN NATIONAL COMMISSION FOR COOPERATION WITH UNESCO (INC)

New Delhi, the 18th September 2003

No. F. 22-2/2001-INC.—In continuation of the Government of India, Ministry of Human Resource Development's Notifications of even number dated 17-9-2002 & 26-2-2003 the following are included as Institutional members in the Sub-Commissions on Science, Communication and Education :—

Sub-Commission on Science

At Sl. No.

7. Secretary,
Ministry of Water Resources,
Shram Shakti Bhavan,
Rafi Marg,
New Delhi.

8. Secretary,
Ministry of Environment & Forest,
C.G.O. Complex,
Lodi Road,
New Delhi-110003.

Sub-Commission on Communication

At Sl. No.

8. Secretary,
Ministry of Information Technology,
Block No. 6, CGO Complex,
Lodi Road,
New Delhi.

Sub-Commission on Education

At Sl. No.

6. Secretary,
Department of Elementary Education & Literacy,
Ministry of Human Resource Development,
Shastri Bhavan,
New Delhi.

ORDER

Ordered that the amendment be communicated to all the individual and institutional members of the Indian National Commission for Cooperation with UNESCO (INC), all Ministries and Departments of the Government of India, all the State Governments, Union Territories, Planning Commission, Lok Sabha Secretariat, Prime Minister's Office and President's Secretariat, etc.

C. BALAKRISHNAN, Jr. Secy.

(DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION & LITERACY)

New Delhi, the 26th August 2003 (Sat)

RESOLUTION

Subject :—Setting up of National Mission for Sarva Shiksha Abhiyan—Corrigendum.

No. F. 2-4/2000-EE.III (Desk-EE).—Govt. of India vide resolution No. F. 2-4/2000-Desk (EE) dated 2nd January, 2001 had set up the National Mission for Sarva Shiksha Abhiyan under the Chairmanship of the Prime Minister. The Mission have a Governing Council and an Executive Committee.

In partial modification of the composition of the Governing Council and the Executive Committee of the Mission. The Minister of State, HRD will be a member of the Governing Council and Senior Vice-Chairman of the Executive Committee. The revised constitution of the Governing Council and Executive Committee will be as follows :—

GOVERNING COUNCIL

- (i) Prime Minister of India—Chairman
- (ii) Minister of HRD—Vice-Chairman
- (iii) Minister of State, HRD
- (iv) Finance Minister, GOI
- (v) Deputy Chairman, Planning Commission
- (vi) Minister of State for Women & Child Development
- (vii) Minister of State for Social Justice & Empowerment
- (viii) Six Senior level political leaders of the main national parties
- (ix) Three Members of Parliament (Two from the Lok Sabha and one from the Rajya Sabha)
- (x) Six Education Minister of States responsible for Elementary Education
- (xi) Six representatives of teachers and teacher unions

- (xii) Five persons from among educationists, scientists etc.
- (xiii) Six persons from non-governmental organisations working in the field of Education
- (xiv) Three persons from women's organisations
- (xv) Three persons working among Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the field of Elementary Education.

EXECUTIVE COMMITTEE

- (i) Minister, Human Resource Development—Chairman
- (ii) Minister of State, HRD —Senior Vice-Chairman
- (iii) Secretary, Deptt. of EE & Literacy—Vice Chairman
- (iv) Director, NCERT
- (v) Director, NIEPA
- (vi) Chairman, NCTE
- (vii) DG, NLM
- (viii) DG, CSIR
- (ix) FA, MHRD
- (x) Principal Adviser (Education), Planning Commission
- (xi) Seven non-officials comprising of teachers, NGOs representatives, educationists to be nominated by Chairman of the Council
- (xii) Education Secretaries of four States

(xiii) Joint Secretary, Elementary Education & DG, Sarva Shiksha Abhiyan National Mission—Member Secretary.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all members of the Sarva Shiksha Abhiyan.

ORDERED that a copy of this Resolution be sent to all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. C. TRIPATHI
Secretary

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, 19th September 2003

No. PLU 12/1/03-PP.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 15/2/91-BM dated 17-4-95 and Notification No. 32/1/96-ER/591 dated 1-8-96, it has been decided with the approval of Minister of Water Resources that in the composition of the "Coastal Protection and Development Advisory Committee", the name of Commissioner (PP), Ministry of Water Resources may be included as a Member at Sl. No. 7 in lieu of Commissioner (ER), Ministry of Water Resources.

All other functions and terms and conditions of the above Committee as per this Ministry's Resolution No. 15/2/91-BM dated 17-4-95 will remain unchanged.

A. K. SURI, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD.
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003